



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन 1936 (श0)  
(सं0 पटना 383) पटना, शुक्रवार, 20 मार्च 2015

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

27 फरवरी 2015

सं0 3/एम0-32/2013सा0प्र0-3235—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु इस विभाग का संकल्प संख्या-2804 दिनांक 29.03.2010 निर्गत है। संकल्प की कंडिका-4, में वैसे पदों को रखा गया है जिनपर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को, संविदा के आधार पर, संकल्प के प्रावधान के तहत, नियोजित किया जा सकता है।

2. संकल्प की कंडिका-6 के प्रावधान के तहत कुछ अन्य पदों को, विभागीय आदेश संख्या-11338 दिनांक 09.07.2013; आदेश संख्या-12951 दिनांक 06.08.2013; आदेश संख्या-16599 दिनांक 21.10.2013; आदेश संख्या-19813 दिनांक 31.12.2013, आदेश संख्या-6567 दिनांक 20.05.2014, आदेश संख्या-9961 दिनांक 21.07.2014, आदेश संख्या-13194 दिनांक 22.09.2014, आदेश संख्या-518 दिनांक 12.01.2015 एवं आदेश संख्या-2691 दिनांक 19.02.2015 के द्वारा, संकल्प की कंडिका-4 में सम्मिलित किया जा चुका है।

3. उक्त के उपरांत वाणिज्य-कर विभाग से प्राप्त अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरांत निम्न पद को संकल्प संख्या-2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संकल्प की कंडिका-4 में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है—

क्रमांक	विभाग का नाम	संकल्प संख्या- 2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-4 में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित पद।
1.	वाणिज्य-कर विभाग	वाणिज्य-कर विभाग के बिहार वित्त सेवा के सभी कोटि के पदाधिकारी।

4. उक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवाएँ लिए जाने के संबंध में संकल्प संख्या-2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-5 एवं उसमें निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं उक्त आलोक में इन पदों पर सेवायें लिए जाने के संबंध में वाणिज्य-कर विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,  
अनिल कुमार,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 383-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>